

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत पारेषण मण्डलद्वितीय  
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्मिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
पनकी-कानपुर  
GSTIN : 09AAAACU8823E1Z9  
Email ID : astc2kanp@gmail.com / पिन कोड 2071048040

पत्रांक- 783 / वि०प्रे०मं०द्वि०प० (का०) / टी०-1

दिनांक - 15.09.2021

विषय- निविदा प्रकाशन हेतु।

विज्ञापन व्यवस्थापक,

- 1- दैनिक स्वतंत्र पत्रिका कानपुर।
- 2- दि इन्डियन एक्सप्रेस लखनऊ।

शोधक

कृपया सार्वजनिक विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में दिनांक शीर्षतम अंक में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 8-10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों के लिये 8-4 प्वाइन्ट टाइप में) समाचार पत्र के केवल एक कालम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाइन में उचित स्थान के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर ही करने की व्यवस्था करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अधिम भुगतान प्राप्ति रसीदी तिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउंचर प्रतियाँ सलग्न करते हुये भुगतान हेतु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डलद्वितीय 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, पनकी, कानपुर को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डलद्वितीय 30 प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, पनकी, कानपुर द्वारा सम्बन्धित बिलों को पारित करने के परचात पारित बिलों को भुगतान सम्बन्धित खात के द्वारा मुहतासत से धन प्राप्ति के परचात किया जायेगा।
4. सार्वजनिक हिन्दी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जायेगा।
5. विज्ञापन प्रकाशित होते ही बिलम्बत एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अप्रोहस्ताक्षरी को सूचनाार्थ अवश्य भेज दी जाय अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. यदि आपकी सूचना एवं उन सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दूरच प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें। अप्रोहस्ताक्षरी को अदिलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
7. विज्ञापन के अन्त में सबसे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित में बिजली बचाव" का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
8. उक्त निर्देशों के विरुद्ध तथा गलत अथवा भ्रष्ट ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोक/निरस्त किया जा सकता है।

सलग्न - विज्ञापन आदेश प्रथम व द्वितीय प्रति।

प्रतिनिधि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं कारवेवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (राजधानी) 30 प्र0 पावर ट्रान्मिशन कारपोरेशन लि०, इलाहाबाद।
2. कोष निविदा सम्बन्धित खात कर्तालय / सम्बन्धित निविदा पत्रावली/कट फाइल/ नोटिस बोर्ड।

महोदय  
(सुनील चन्द्र मिश्र)  
अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत पारेषण मण्डलद्वितीय  
30प्र0 पावर कारपोरेशन लि०  
पनकी कानपुर

(सुनील चन्द्र मिश्र)  
अधीक्षण अभियन्ता (पाणे)द्वितीय

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित ई-निविदा जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ई-निविदा की वेबसाईट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर अपलोड कर दी गई है:-

ई-निविदा संख्या—T-54/ETC-II(K)/2021-22, विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, कानपुर के अन्तर्गत 220के०वी० विद्युत उपकेन्द्र कानपुर साउथ के स्विचयार्ड में आग से सुरक्षा हेतु रखे हुए फोम तथा CO<sub>2</sub> टाइप अग्नि शमन संयंत्रों की रिफिलिंग व मरम्मत का कार्य।

ई-निविदा संख्या—T-55/ETC-II(K)/2021-22, 132के०वी० विद्युत उपकेन्द्र कृष्णानगर, कानपुर पर वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।

ई-निविदा संख्या—T-56/ETC-II(K)/2021-22, 132के०वी० विद्युत उपकेन्द्र घाटमपुर, कानपुर पर घास कटाई एवं लॉन अनुरक्षण का कार्य।

ई-निविदा संख्या—T-57/ETC-II(K)/2021-22, 132के०वी० विद्युत उपकेन्द्र कृष्णानगर, कानपुर पर घास कटाई एवं लॉन अनुरक्षण का कार्य।

ई-निविदा संख्या—T-58/ETC-II(K)/2021-22, 220के०वी० विद्युत उपकेन्द्र नौबस्ता, कानपुर पर स्थापित संयंत्रों के अनुरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के टर्मिनल कनेक्टरों, जॉ तथा मेल कान्टेक्ट इत्यादि की आपूर्ति का कार्य।

उपरोक्त विषय में विस्तृत विवरण साईट पर उपलब्ध हैं सभी सक्षम आपूर्ति/कार्यदायी संस्थाएं तदनुसार निविदा में भाग ले सकती हैं।

Published Date:-16-09-2021

अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, पनकी, कानपुर  
विद्युत प्रेषण मण्डल, उत्तर प्रदेश  
3080 फावर टाउन, कानपुर  
पनकी कानपुर

“ राष्ट्र हित में बिजली बचायें ”